



SRM ENERGY LIMITED

REGD. & ADMIN OFFICE: 21, BASANT LOK COMPLEX, VASANT VIHAR, NEW DELHI-110057

CIN L17100DL1985PLC303047
TEL. NO. +91-011-41403205

website: www.srmenergy.in
email: info@srmenergy.in

Ref: SRMEL/ST.EX./2020-21/

Dated: 4th November, 2020

BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED
DEPARTMENT OF CORPORATE SERVICES
FLOOR 25, PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS,
DALAL STREET,
MUMBAI-400001

Our Scrip Code: 523222

Subject: Notice of Board Meeting and Closure of trading window of the Company.

Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("SEBI LODR Regulation, 2015) this is to inform you that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held through Video Conferencing at 12:15 PM on Wednesday, 11th November, 2020 to be hosted from the Registered office of the Company, i.e., 21 Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi- 110057 to consider the following:

1. To consider Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the second quarter and half year ended on 30th September, 2020.
2. To transact any other matter which the Board may deem fit.

In context to the above and in reference to our earlier intimation dated 01st October, 2020 regarding closure of Trading Window, please also take on record that Trading Window for dealing in securities of the Company has been closed from 1st October, 2020 and which shall remain closed till 13th November, 2020 (both days inclusive) as per the Code of Conduct of the Company under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For SRM Energy Limited

SUVINDRA
KUMAR

Digitally signed by
SUVINDRA KUMAR
Date: 2020.11.04
19:17:14 +05'30'

(Suvindra Kumar)

Company Secretary & Compliance Officer

ACS: 22747

14 FINANCIAL EXPRESS

PRECISION ELECTRONICS LIMITED
 Regd. Office: D-1081, New Friends Colony New Delhi-110025
 CIN: L32104DL1979PLC009590

Notice of Board Meeting

Notice is hereby given that pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of Board of Directors of the Company shall be held on Wednesday, November 11, 2020 at 12.00 pm to consider inter-alia the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended September 30, 2020.

The notice is also available on Company's website www.pel-india.com and Bombay stock exchange www.bseindia.com.

For Precision Electronics Limited

Sd/-
Veenita Puri
 Company Secretary & Compliance Officer
 Place: Noida
 Date: 05.11.2020



SRM ENERGY LIMITED

Regd. & Admin Office: 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057
 CIN L17100DL1985PLC030047

Website: www.srmenergy.in
 TEL. NO. +91-011-41403205
 Email: info@srmenergy.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held through Video Conferencing on Wednesday, November 11, 2020 at 12:15 p.m. to be hosted from the Registered Office of the Company i.e., 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057 to inter-alia consider the following:

- The un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the second quarter and half year ended on 30th September, 2020.
- To transact any other business which the Board may deem fit.

This information is also available on the website of the company viz. www.srmenergy.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com).

For SRM Energy Limited

Sd/-
(Suvindra Kumar)
 Company Secretary
 Place: New Delhi
 Date: November 4, 2020 ACS: 22747

MANGALAM TIMBER PRODUCTS LIMITED
 CIN: LO200TOR1982PLC001101

Regd. Office: Vill. Kusumi, P.O. & Dist. Nabarangpur
 Email: admin@mangalamtimber.com
 Tel: +91-6858 222148/142/053 - Fax: +91 6858 222 42

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of the Board of the Directors of the Company will be held on Thursday, the 12th November, 2020, at Birla Building, 10th floor, 9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700 001, inter alia, to consider, approve and take on record the unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Yearly Ended 30th September, 2020.

The said information is also available on the Company's website at www.mangalamtimber.com and may also be available on the websites of the Stock Exchanges at



SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED

CIN: L65929TG2003PLC040648

Regd. Office: Plot No: 31 & 32, Ramky Selenium Towers, Tower A, Ground Floor, Financial Dist., Nanakramguda, Hyderabad, Telangana-500032. Phone: +91-40-48126666, Email Id: secretarial@spandanaindia.com, Website: www.spandanaindia.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, November 13, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half-year ended September 30, 2020.

The information contained in this notice may also be accessed on the website of the Company i.e. www.spandanaindia.com and also on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

For Spandana Sphoorty Financial Limited
 Sd/- Ramesh Periasamy
 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Hyderabad

Date: November 04, 2020



POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

Regd. Office : "Urjanidhi", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi -110001
 Tel: +91-11-23456000. Fax: +91-11-23412646. Email id: investorsgrievance@pfcindia.com
 CIN: L65910DL1986GOI024862, Website: www.pfcindia.com

Notice

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 12th November, 2020, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and half year ended 30th September, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website i.e. www.pfcindia.com and may also be accessed on the stock exchanges website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Power Finance Corporation Ltd.

Date: 04.11.2020

Place: New Delhi

Sd/-
Manohar Balwani
 (CGM & Company Secretary)

VICEROY HOTELS LIMITED

CIN: L55101TG1965PLC001048

Regd. Office: Plot No.20, Sector-1, 4th Floor, Huda Techno Enclave, Madhapur, Hyderabad - 500081, Telangana
 Phone: 91-40 2311 9695/4034 9999;; Fax: 91-40 - 4034 9828
 Email: secretarial.viceroy@gmail.com; Website: www.viceroyhotels.in;

VICEROY

NOTICE

Notice is hereby given that in terms of Regulation 29 read with 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors (RP) of Viceroy Hotels Limited will be held on Thursday, 12th November, 2020 at the registered office of the Company situated at Plot No.20, Sector-1, Survey No.64, 4th Floor, HUDA Techno Enclave, Hyderabad - 500081, Telangana, India, inter-alia to consider and approve the un-audited Financial Results (both Standalone & Consolidated) for the second quarter and half year ended on 30th September, 2020.

For Viceroy Hotels Limited

Sd/-
Karuchola Koteswara Rao
 Resolution Professional in the matter of
 M/s Viceroy Hotels Ltd
 Regn no.IBBI/IPA-003/IP-N00039/2017-18/10301
 Email ID: kkrao1rp@gmail.com

Date : 04-11-2020

Place: Hyderabad.

NAHAR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: Focal Point, Ludhiana - 141010

CIN: L15143PB1983PLC018321

Website: www.ownnahar.com; Email: share@ownnahar.com
 Phone: 0161-2672590, Fax No. 0161-2674072

COMPANY NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th November, 2020 at the Registered Office of the Company, inter-alia; to consider & approve the Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter /Half year ended on 30th September, 2020. The Notice is also available at the Company's website i.e. www.ownnahar.com and Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For NAHAR INDUSTRIAL ENTERPRISES LTD.

Place : Ludhiana

Date : 04.11.2020

Sd/-
MUKESH SOOD
 Company Secretary



CL Educate Limited

CIN: L74899HR1996PLC076897

Registered Office: Plot No. 9A, Sector-27A, Mathura Road, Faridabad, Haryana- 121003
 Corporate Office: A-45, First Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi - 110044
 Tel: +91 (11) 4128 1100, Fax: +91 (11) 4128 1101
 E-mail: compliance@cleducate.com, Website: www.cleducate.com

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 29 and 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020, through Video Conferencing mode, inter-alia, to consider and approve the

Regd. Office: 78, Ratnajat Industrial Estate
 CIN No: L72200MH1995PLC093

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th November, 2020 at the Corporate Office of the Company, Near Garware Chowk, Vile Parle (East), Mumbai-400014, to consider and approve the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020 and for any other matter as may be desired by the Board of Directors of the Company. The Company shall intimate to the exchanges the Un-audited Financial Results of the Company and will arrange for the announcement of the same under SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

Place: Mumbai
 Date : 4th November, 2020



INDRAPRASTHA M

Regd. Office : Sarita Vihar,
 Corporate Identity
 Phone: 91-11-269-
 E-mail: imcl@apollohosp

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November, 2020, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020. The above information is also available on the Company's website i.e. <https://delhi.apollohospitals.com> and on the stock exchanges website of the stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com
 New Delhi
 04.11.2020



DUCON INFRA

Regd. Office: DUCON I
 Road No. 1, The
 CIN No: L72900MH200

Pursuant to regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th November, 2020, at the Registered Office of the Company at DUCON House, A/4, MIDC, Wagholi, Pune-412205, to consider and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2020 and for any other matter as may be desired by the Board of Directors of the Company. The Company shall intimate to the exchanges the Un-audited Financial Results of the Company and will arrange for the announcement of the same under SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

Place : Thane
 Date : 4th November, 2020

GB GLOBAL

(formerly known as Mar

CIN: L17120M
 Registered Office: Plot No.C-3, M.I.D.C., Tarapur
 Telephone No.: +91-22-4353 9191 - Tarapur

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020, to consider and take on record on Resolution Professional, Ms. C. S. Mandhana, in the matter of M/s GB Global (formerly known as Mar) Limited, Regn no. IBB/PA-001/IP-P00434/2017-18/1075, Law Tribunal under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC), 2016 and 2326/2019, MA 2124/2019 In C.P. (IB)-1 of 2019, which restored Corporate Insolvency Resolution Process of the Company. The said notice may be accessed on the Company's website www.gbglobal.in and on stock exchanges website www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Place : Mumbai
 Date : 04th November, 2020 (For

Resolution Professional C
 Mandhana Industri
 S
 IBBI Registration No.: IB

सूचकांक 355 अंक

मुंबई, 4 नवंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और सूचकांक 355 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से पहले दुनिया के ज्यादातर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच घरेलू बाजार में मजबूती आई।

बाजार में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और आइट्टी कंपनियों के शेयरों में अच्छी लिवाली से तेजी को बल मिला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में गिरावट से धारणा

प्रभावित हुई। उतार-चढ़ाव

शेयरों पर आधारित बीएसएनएस लिमिटेड यानी 0.88 फीसद मजबूत बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचकांक 355.00 अंक पर खोला गया। शेयरों में सर्वाधिक लार्ज कैप स्टॉक 4.85 फीसद की तेजी इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, को अचछी तेजी रही। दूसरी ओर, उनमें एचडीएफ बैंक, आइसीआईसीआई बैंक,

भाषा)
इस वित्त वर्ष
ख से अधिक
1.29 लाख

करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए हैं। आयकर विभाग ने बताया कि इसमें 34,820 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर और 94,370 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर के रिफंड हैं।

मोदी नेचुरल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 405, दीपाली बिल्डिंग, 92, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
(CIN: L15142DL1974PLC007349)
सूचना
सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015, के विनियम 29 और विनियम 47 के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अर्न्तकक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकॉर्ड पर लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी।
चयन बोर्ड बैठक की सूचना कंपनी और बीएसई की वेबसाइट www.modinaturals.com, www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
कृते मोदी नेचुरल्स लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.11.2020
अंकित बयबाल
कंपनी सचिव

त्यौहार विश

आगामी त्यौहारों के मद्देनजर, रेल में और वृद्धि की गई है। नई घो

रेलगाड़ी सं.	से-तक	आयोजित की
03257	दानापुर - आनन्द विहार ट. जनसाधारण एक्सप्रेस	आयोजित की
03258	आनन्द विहार ट. - दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस	आयोजित की
05529	सहरसा ज.-आनन्द विहार ट. जनसाधारण एक्सप्रेस	आयोजित की
05530	आनन्द विहार ट.-सहरसा ज. जनसाधारण एक्सप्रेस	आयोजित की
05211	दरभंगा ज.-अमृतसर ज. जनसाधारण एक्सप्रेस	आयोजित की
05212	अमृतसर ज.-दरभंगा ज. जनसाधारण एक्सप्रेस	आयोजित की
05531	सहरसा ज.-अमृतसर ज. जनसाधारण एक्सप्रेस	आयोजित की
05532	अमृतसर ज.-सहरसा ज. जनसाधारण एक्सप्रेस	आयोजित की

SRM Energy
SRM ENERGY LIMITED
Regd. & Admin Office: 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057
CIN L17100DL1985PLC303047
Website: www.srmenergy.in
TEL. NO. +91-011-41403205
Email: info@srmenergy.in

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held through Video Conferencing on Wednesday, November 11, 2020 at 12:15 p.m. to be hosted from the Registered Office of the Company i.e., 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057 to inter-alia consider the followings:
• The un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the second quarter and half year ended on 30th September, 2020.
• To transact any other business which the Board may deem fit.
This information is also available on the website of the company viz. www.srmenergy.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com).
For SRM Energy Limited
Sd/-
(Suvintra Kumar)
Place: New Delhi Company Secretary
Date: November 4, 2020 ACS: 22747

दालालों से सावधान
रेल टिकट सदैव रेल टिकट काउन्टर/ अधिकृत रेल एजेंट से ही खरीदें।
नोट: रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर आदि सहित कोविड-19 से संबंधित नियमों और सभी सावधानियों का पालन करें।

नाम सिक्वोरिटीज लिमिटेड
सीआईएन: L74899DL1994PLC350531
पंजीकृत कार्यालय: 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
ई-मेल आईडी: compliance@namsecurities.in,
वेबसाइट: www.namsecurities.in,
दूरभाष: 011-23731122/44
सूचना
सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु कंपनी के अर्न्तकक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए नाम सिक्वोरिटीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2020 को इसके पंजीकृत कार्यालय 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 पर 04.00 बजे अपराह्न आयोजित की जाएगी। पुनः सेबी (आन्तरिक व्यापार नियंत्रण) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार व्यापार निषेध अवधि के सम्बन्ध में 2 अक्टूबर, 2019 को इन्साइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा प्रतिवेदन के संचालन के लिए कंपनी की आधार संरचना के कारण व्यापारिक विवरणों 13 नवम्बर, 2020 को परिणामों को घोषणा की पूर्णता के 48 घण्टे पर्यन्त तक बन्द रहेगी।
यह सूचना बीएसई की वेबसाइट (<https://www.bseindia.com/>) तथा कंपनी की वेबसाइट (<http://www.namsecurities.in/>) पर उपलब्ध है।
कृते नाम सिक्वोरिटीज लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांक: 05.11.2020
स्थान: दिल्ली
किरण गोयल
प्रबन्ध निदेशक

मिशका एक्जिम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: जी-31, ग्राऊन्ड फ्लोर, क्रास रीवर माल, सीबीडी ग्राऊन्ड, शाहदरा, नई दिल्ली-110032
CIN: L51909DL2014PLC270810
वेबसाइट: www.mishkaexim.com
ई-मेल: MISHKAEXIM@GMAIL.COM
सूचना
सेबी (सूची बाधित) एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) 2015 के क्लॉज 29 के अनुसार पंजीकृत सूचना प्रदान की जाती है कि सितम्बर 30, 2020 को समाप्त कंपनी के तिमाही अर्न्तकक्षित एकीकृत एवं संगठित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एवं रिकॉर्ड में ग्रहण करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, नवम्बर 11, 2020 को सायं 03:30 बजे आयोजित करनी तय की गई है।
बोर्ड के आदेशानुसार
कृते मिशका एक्जिम लिमिटेड
हस्ता./-
रजनीश गुप्ता
दिनांक: 04.11.2020
स्थान: नई दिल्ली
प्रबन्ध निदेशक
DIN: 00132141

प्ररूप संख्या आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार पंजीकृत सूचना प्रदान की जाती है कि सितम्बर 30, 2020 को समाप्त कंपनी के तिमाही अर्न्तकक्षित एकीकृत एवं संगठित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एवं रिकॉर्ड में ग्रहण करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, नवम्बर 11, 2020 को सायं 03:30 बजे आयोजित करनी तय की गई है।
बोर्ड के आदेशानुसार
कृते मिशका एक्जिम लिमिटेड
हस्ता./-
रजनीश गुप्ता
दिनांक: 04.11.2020
स्थान: नई दिल्ली
प्रबन्ध निदेशक
DIN: 00132141

अल्टीमेट इन्वेस्टोर्स लिमिटेड
(CIN: U65933DL1991PLC266069)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: डी-26, डीएसआईआईडीसी कॉम्प्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 में है, के मामले में
...आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यह कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, नवम्बर 11, 2020 को सायं 03:30 बजे आयोजित करनी तय की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण के बारे में सूचना प्रदान की जाती है।

एल्को
पंजी. कार्या. आर-4, यूनिट नं. 103, 103, 103
CIN: L74899DL1993PLC055768
30 सितम्बर, 2020 को